

लागू होने की तिथि - 19 अप्रैल 2025

पर्सनल लोन के लिए शुल्क की अनुसूची

क्रमांक	मानदंड	वास्तविक शुल्क (जीएसटी को छोड़कर)
1	ब्याज दर	10.49% प्रति वर्ष से 15% प्रति वर्ष
2	लोन प्रोसेसिंग शुल्क	लोन राशि का 3% तक (वितरण राशि से काटा जाएगा)
3	लोन कैंसल करने के लिए कूलिंग अवधि	लोन वितरण की तिथि से 5 दिन (कूलिंग अवधि के भीतर कैंसल किए गए लोन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा)
4	स्टाम्पिंग शुल्क	तमिलनाडु राज्य के स्टाम्प कानून के अनुसार
5	बकाया ब्याज	देय तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक, बकाया राशि पर 3% प्रति माह
6	फोरक्लोजर/पूर्व भुगतान शुल्क	12 ईएमआई का भुगतान करने के बाद ग्राहक को लोन के फोरक्लोजर/पूर्व भुगतान की अनुमति होगी समापन तिथि पर बकाया मूलधन पर 2%
7	आंशिक पूर्व भुगतान	6 ईएमआई के भुगतान के बाद आंशिक पूर्व भुगतान की अनुमति होगी। ग्राहक द्वारा भुगतान किया जाने वाला न्यूनतम आंशिक भुगतान 6 ईएमआई या बकाया मूलधन का 10% (जो भी अधिक हो) है। ग्राहक द्वारा भुगतान की जाने वाली आंशिक राशि का 2%।
8	ईएमआई वापसी (चेक/एसआई/एसीएच/ईसीएस) शुल्क	₹ 500 प्रति घटना
9	क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस	क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस लेने वाले ग्राहकों के लिए बीमा कंपनी के नियम व शर्तें लागू होंगी।
10	भुगतान की प्राथमिकता	अगर किसी ग्राहक को दो या उससे ज्यादा लोन दिए गए हैं, तो भुगतान करते समय बिना गारंटी वाले लोन को पहले चुकाया जाएगा।

नोट:

1. इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा परिभाषित पर्सनल लोन उत्पाद प्रकारों के लिए शुल्क लागू होंगे।
2. लागू दर के अनुसार शुल्क और प्रभारों के अतिरिक्त लागू जीएसटी और अन्य सरकारी टैक्स वसूले जाएंगे।